

कंप्यूटर व प्रिंटर की मदद से बनाते थे नकली करंसी, 100 के नौ नोट समेत दो गिरफ्तार



Publish Date: Mon, 12 Oct 2020 12:49 PM (IST) Author: Vipin Kumar

कंप्यूटर व प्रिंटर की मदद से नकली करंसी बना कर मार्केट में चला रहे दो लोगों को थाना मेहरबान पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जबकि उनके एक और साथी की पुलिस को तलाश है। उनके कब्जे से 100-100 रुपये के नौ नकली नोट बरामद किए गए।

लुधियाना, जेएनएन। कंप्यूटर व प्रिंटर की मदद से नकली करंसी बना कर मार्केट में चला रहे दो लोगों को थाना मेहरबान पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जबकि उनके एक और साथी की पुलिस को तलाश है। उनके कब्जे से 100-100 रुपये के नौ नकली नोट बरामद किए गए, जिन्हें वो मार्केट में चलाने के लिए जा रहे थे। तीनों के खिलाफ केस दर्ज करके पकड़े गए दोनों आरोपितों को सोमवार अदालत में पेश किया गया। जहां से दो दिन का रिमांड हासिल करके कड़ी पूछताछ की जा रही है।

एसआइ हर्षपाल सिंह ने बताया कि आरोपितों की पहचान चांद कालाेनी निवासी संजीव राय तथा करनैल सिंह नगर निवासी सुनील कुमार के रूप में हुई। जबकि रिशी नगर निवासी दलवीर सिंह की पुलिस को तलाश है। पुलिस को रविवार शाम गुप्त सूचना मिली थी कि आरोपित कंप्यूटर व प्रिंटर की मदद से नकली करंसी बना कर बाजार में चला रहे हैं। जिससे देश की आर्थिक व्यवस्था को खतरा पैदा हो सकता है। आज भी दोनों मेहरबान के राहों रोड से मंगली बस स्टैंड की आैर नकली करंसी चलाने के लिए स्कूटर और मोटरसाइकिल पर सवार होकर आ रहे हैं।

सूचना के आधार पर गांव हवास पर की गई नाकाबंदी के दौरान दोनों को काबू कर लिया गया। पूछताछ में संजीव राय ने बताया कि पहले वो सीसीटीवी कैमरे का काम करता था। लाकडाउन के दौरान उसकी आर्थिक हालत बेहद बिगड़ गई। जिसके चलते उसने सुनील और दलवीर के साथ मिल कर यह काम करना शुरू कर दिया। सुनील के खिलाफ पहले भी नशा तस्करी के केस दर्ज हैं। हर्षपाल ने कहा कि अभी यह पता लगाया जाना बाकी है कि आरोपित अब तक कितने नोट बना कर मार्केट में चला चुके हैं। उनके कब्जे से कंप्यूटर और प्रिंटर बरामद करना भी अभी बाकी है। फरार चल रहे दलबीर की गिरफ्तारी के लिए उसके ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। दोनों आरोपितों से की जा रही पूछताछ में कई अहम खुलासे होने की संभावना है।

Source: https://www.jagran.com/punjab/ludhiana-fake-currency-made-with-the-help-of-computer-and-printer-two-arrested-20867009.html?utm_expnid=.vB1sxhIHSZevYRWvid7GIQ.0&utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F